

लॉकडाउन में बेच रहे थे पुराना व घटिया तेल, एफडीए ने मारा छापा

दैनिक भास्कर

राज्य

महाराष्ट्र

नागपुर

April 16th, 2020 16:41 IST

महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र महाराष्ट्र की खबरें महाराष्ट्र ताजा समाचार महाराष्ट्र हिंदी समाचार



डिजिटल डेस्क, नागपुर। देश इन दिनों कोरोना की जंग लड़ रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे समय में भी ज्यादा पैसों की लालच में कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि अन्न व औषधि विभाग लॉकडाउन में भी छापामार कार्रवाई कर कालाबाजारियों की धरपकड़ कर रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 22 मार्च से अब तक विभाग ने 380 छापामार कार्रवाई की है। जिसमें अधिकांश तेल की कालाबाजारी करते हुए लोगों को पकड़ा गया है।

देश में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है इस दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की सेवा ही शुरू है। जिसमें अनाज, सब्जी-भाजी व दवा आदि की दुकानें शामिल हैं। लोगों में कोरोना की दहशत इस हद तक है, कि वह अब अनाज दुकानों में आने के बाद किसी भी तरह की क्वालिटी आदि की जांच-पड़ताल कर ही दुकानदारों के मनमर्जी से सामान ले रहे हैं। इसी का फायदा कुछ कालाबाजारी मिलावट या घटिया दर्जे का सामान बेचकर उठा रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अन्न व औषधि विभाग की ओर से लगातार अनाज दुकानों में छापामार कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के कुछ दिन तक एफडीए की गतिविधियां नहीं देखने से कुछ दुकानदार बेखौफ मिलावट कर रहे थे लेकिन अचानक बाजारों में एफडीए की टीम ने छापामार कार्रवाई करने के बाद सभी सकते में आ गये हैं।

डेढ़ लाख का तेल जब्त

लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मिलावटखोरी खाने के तेल में होते दिखाई दे रही है। कोई बेचने की तिथि निकलने के बाद भी पुराना तेल के पैकेट बेच रहा है। तो कोई खराब टिन के डिब्बों में तेल सप्लाय कर रहा है। अन्न विभाग के सहायक आयुक्त अभय देशपांडे ने बताया कि, जेठानंद एंड कंपनी को एफडीए ने पहले ही सील कर दिया है। फिर भी यह कंपनी रिफाइंड सोयाबीन तेल बेच रही थी। ऐसे में 9 सौ 72 किलो तेल 1 लाख 16 हजार का जब्त किया गया है। इसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इसी तरह इतवारा परिसर में मधुसूदन ट्रेडर्स से पुराने तेल के पैकेट बेचते पकड़ा गया है। जिसके बाद विभाग ने रिफाइंड सूर्यफूल ऑइल के 27 हजार से ज्यादा कीमत के पैकेट जब्त किये हैं। इसके अलावा बिना कोई लेबल लगाये घटिया दर्जे का मिर्ची व हल्दी पाउडर बेचनेवालों पर भी कार्रवाई करते हुए 28 किलो का माल जब्त किया गया है। विभाग ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू भी जब्त किया है।

औषधि विभाग ने की 303 छापामार कार्रवाई

सह आयुक्त एम. शेंडे ने बताया कि 11 मार्च से अब तक उनकी टीम ने 303 जगह छापामार कार्रवाई की है। जिसमें 20 लाख से ज्यादा के केवल सेनेटाइजर ही जब्त किये गये हैं। जिसमें 10 लाख के सेनेटाइजर भंडारा में जब्त किये थे। 10 लाख से ज्यादा के सेनेटाइजर बर्डी से जब्त किये थे। बगैर लाइसेंस वह सेनेटाइजर का निर्माण कर रहे थे। इसके अलावा वैद्यमापन विभाग की मदद से 20 कार्रवाई ओवर प्राइज पर मास्क बेचनेवालों पर की है।

टीम बनाकर हो रही निगरानी

एफडीए के अधिकारियों ने बताया कि, लॉकडाउन की स्थिति में सेनेटाइजर, हैड वॉश से लेकर अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए जो के अनुसार टीम तैयार की है। एक टीम में एफडीए के अधिकारी के साथ क्राइम ब्रांच, वैद्य मापन शास्त्र विभाग व अन्न आपूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल हैं। यह टीम केवल दुकानों पर ही नहीं बल्कि भोजनदान से लेकर लोगों तक पहुंचाये जानेवाले अनाज पर भी ध्यान रख रही है।